

ईश्वरीय  
खजाना  
टीम  
*Presents*

# विशेष पुरुषार्थ

तीव्रता से आगे बढ़ने की शेष युक्तियां

यह शेष पुरुषार्थ की  
भिन्न भिन्न युक्तियाँ  
बाबा की रोज  
जैसे मीठी थपकी है  
अन्तर्मन में  
जो समा ले इसे  
जीवन में उसकी सफलता  
शत प्रतिशत पक्की है...



## AAJ KA SWAMAAN

मैं शुभ चिंतन द्वारा वातावरण को  
शक्तिशाली बनाने वाली सन्तुष्ट  
आत्मा हूँ।



# समय की पुकार है- तीव्र पुरुषार्थी भव

बापदादा- 30-11-2011

अभी जहाँ भी जो बैठे हैं उन सबको चाहे टी.वी. में देख रहे हैं, चाहे यहाँ भिन्न-भिन्न स्थान पर बैठे हैं वह भी टी.वी. में देख रहे हैं, एक एक बच्चे को बापदादा आज तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहा है। अभी इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन हैं? तो यही कहना तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है, सभी को मंजूर है। मंजूर है? अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है इसीलिए अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है, समय की पुकार है - तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सभी बच्चों को बापदादा की बहुत-बहुत यादप्यार और तीव्र पुरुषार्थ की सौगात दे रहे हैं।

ओम् शान्ति



# "मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ - देना ही लेना है"

हरेक दातापन की भावना रखे तो सब देने वाले अर्थात् सम्पन्न आत्मा हो जायेंगे। सम्पन्न नहीं होंगे तो दे भी नहीं सकेंगे। तो जो सम्पन्न आत्मा होगी वह सदा तृप्त आत्मा ज़रूर होगी। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ - देना ही लेना है। जितना देना उतना लेना ही है। प्रैक्टिकल में लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनना है। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न, इच्छा मात्रम् अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है- सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नज़र रहे। वह लक्ष्य है बिन्दु। एक लक्ष्य अर्थात् बिन्दी की तरफ सदा देखने वाले। अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी नहीं देखें। नज़र एक बिन्दु की तरफ ही हो - जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली के तरफ नज़र नहीं थी लेकिन आंख की भी बिन्दु में थी। तो मछली है विस्तार - और सार है बिन्दु। तो विस्तार को नहीं देखा लेकिन सार अर्थात् एक बिन्दु को देखा।



ओम शांति

ब्रह्मकुमारी शिवानी के विचार

वाणी से ही खुशी, वाणी से ही गम  
वाणी ही पीड़ा, और वाणी ही मरहम ।

इसीलिए

कोशिश कीजिए कि आपकी वाणी से  
किसी को खुशी पहुंचे कष्ट नहीं !!

Atul



किसी ने गलती की, हमने शिक्षा दी,  
वह शिक्षा को स्वीकार नहीं करते ।  
शिक्षा देने की विधि है –  
पहले क्षमा करना, फिर शिक्षा देना ।  
क्षमा – उनकी गलती अपने चित्त पर नहीं,  
Pure Vibrations के साथ शिक्षा देंगे,  
सच्चा प्यार, पत्थर को भी पानी कर देता है ।

**शिक्षा देकर क्षमा नहीं करना  
क्षमा करके फिर शिक्षा देना**

- B K S H I V A N I

[facebook.com/BKShivani](https://facebook.com/BKShivani)  
[youtube.com/BKShivani](https://youtube.com/BKShivani)



"Messages keep popping on my phone.  
I cannot avoid them..."

These lines imply -

"I am NOT In-Charge of myself."

In a world flooded with information  
We need to filter what we receive.

**Observe DIGITAL FASTING for  
Emotional, Mental, Social & Global Health.**





## Brahma Kumaris Websites

Main BK website [www.shivbabas.org](http://www.shivbabas.org) OR  
[www.brahmakumari.org](http://www.brahmakumari.org) (by SBS team)

Int'l website: [www.brahmakumaris.org](http://www.brahmakumaris.org)

India website: [www.brahmakumaris.com](http://www.brahmakumaris.com)

BK Sustenance website:  
[www.bksustenance.net](http://www.bksustenance.net)

All Data hosted on [www.bkdrluhar.com](http://www.bkdrluhar.com)

Murli Websites: [babamurli.net](http://babamurli.net)  
and [madhubanmurli.org](http://madhubanmurli.org)

[www.omshantimusic.net](http://www.omshantimusic.net)

[www.bkgoogle.org](http://www.bkgoogle.org)

[www.bksewa.org](http://www.bksewa.org)

[www.bkinfo.in](http://www.bkinfo.in)

[www.bk.ooo](http://www.bk.ooo)

[www.brahmakumari.org/centres](http://www.brahmakumari.org/centres)

NEW

[www.IshvariyaKhajana.BKhq.org](http://www.IshvariyaKhajana.BKhq.org)